

उत्तर प्रदेश में तकनीकोन्मुखी मत्स्य-पालन का विकास" विषय पर आयोजित वेबिनार का आयोजन

कृषि विज्ञान केंद्र -भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के सभागार में आज दिनांक 29-01-2021 को मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार तथा भाकृअनुप-केंद्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत "उत्तर प्रदेश में तकनीकोन्मुखी मत्स्य-पालन का विकास" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया।



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ राजीव रंजन, सचिव (मत्स्य, पशु-पालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार) थे। इसके अतिरिक्त श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव (मत्स्य), उ.प्र., श्री एस.के. सिंह, निदेशक, मत्स्य विभाग, लखनऊ, डॉ. सरोज कुमार स्वेन, निदेशक, सीफा, भुवनेश्वर, श्री संजय कुमार शुक्ला एवं डॉ. हरेंदा प्रसाद (उप-निदेशक, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ) एवं डॉ. विन्दु आर पिल्लई, विभागाध्यक्ष, सीफा, भुवनेश्वर तथा डॉ. राज करन सिंह, अध्यक्ष, भाकृअनुप-कृषि विज्ञान केन्द्र, इज़तनगर, बरेली सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों ने ऑन-लाइन मोड द्वारा सहभागिता की। कार्यक्रम का स्वागत भाषण श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव (मत्स्य), उ.प्र. ने किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि डॉ राजीव रंजन, सचिव (मत्स्य, पशु-पालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार) ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत राज्य में मत्स्य विकास कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. सरोज कुमार स्वेन, निदेशक, सीफा, भुवनेश्वर ने सजावटी मछलियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा उत्तर प्रदेश में सजावटी मछली पालन की संभावनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। इसी क्रम में डॉ. विन्दु आर पिल्लई, विभागाध्यक्ष, सीफा, भुवनेश्वर ने मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण तथा झींगा पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर लाभार्थियों को केसीसी कार्ड, फ्रिश्में हाउस तथा मोटरसाइकल की चाबियाँ प्रदान कीं और लाभार्थियों को अनुदान पत्र भी दिये। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर०ए०एस०, बायोफ्लाक एवं फिश फीड मिल दिया गया। बरेली मत्स्य विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के सभागार में आज कुल 90 मत्स्य पालकों ने भाग लिया। जिसमें 24 मत्स्य पालकों को इस योजना के अंतर्गत अनुदान पत्र वितरित किए गये। अंत में डॉ सृष्टि यादव, उप निदेशक, मत्स्य विभाग, बरेली ने सभी विशिष्ट अतिथियों एवं सभी मत्स्य पालकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।



High value-
Rs. 500-2000
or even more / fish

ICAR-CIFA

Green Fish... Green with Fish...

10